



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 19.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पर दाखिल मुकदमाती व लावारिस एवं एम0वी0 एक्ट के कुल 72 वाहनों (जिनकी कुल कीमत 12 लाख 65 हजार रूपये ) की नीलामी के सम्बन्ध में।

### कार्यवाही-

दिनांक 19.07.2022 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना सिंघावली अहीर पर वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के माल दाखिल मुकदमाती व लावारिस वाहन एवं एम0वी0 एक्ट के वाहनों की नीलामी उप जिला मजिस्ट्रेट बागपत व क्षेत्राधिकारी नगर बागपत व उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत व प्रभारी निरीक्षक थाना सिंघावली अहीर की उपस्थिति में की गयी। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल- 72 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिसमें कुल- 72 वाहन जिनमें से 70 वाहन थाना सिंघावली अहीर व 02 वाहन महिला थाना (जिनकी कुल कीमत कीमत 12 लाख 65 हजार रूपये) चार पहिया/दो पहिया वाहनों की नीलामी की गयी।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 19.07.2022

ऑपरेशन स्मार्टल अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृत 12 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद 07 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्मार्टल अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृत अपहृत 12 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद 07 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



### बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना चांदीनगर ।

2-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.07.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने वाहनों से बैट्री व कस्बा बागपत में सामान चोरी करने की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध छुरी बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा वाहनों से बैट्री व कस्बा बागपत में सामान चोरी करने की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध छुरी बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अभिषेक पुत्र योगेन्द्र निवासी कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-शानू पुत्र एहसान निवासी ईदगाह के पास कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध छुरी ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियव्रत को0बागपत ।
- 2-का0 942 ओमदत्त नादर को0बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 19.07.2022

**थाना चांदीनगर पुलिस थाने के मु0अ0सं0 149/22 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/22 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-विकास पुत्र सुनील निवासी सैक्टर-9 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चांदीनगर

2-का0 556 इलयास अहमद थाना चांदीनगर



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19-07-2022

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 728/22 धारा 307/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.22 को थाना कोतवाली बागपत वादी जाहिद पुत्र एजाज अली निवासी खरदौनी थाना इंचौली जनपद मेरठ द्वारा तहरीर दी कि ग्राम निवाडा में अभियुक्त जुनैद पुत्र इरफान निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत व दो अन्य अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करना और जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 728/22 धारा 307/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 728/22 धारा 307/506 भादवि में वांछित अभियुक्त जुनैद को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. जुनैद पुत्र इरफान निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2- का0 407 सुमित सिरौही थाना कोतवाली बागपत ।